

नई ऑटैरियो व्यापार रजिस्ट्री - तथ्य पत्र

अवलोकन

19 अक्टूबर, 2021 को ऑटैरियो सरकार द्वारा एक नई व्यापार रजिस्ट्री शुरुआत की जाएगी। यह आधुनिक ऑनलाइन सेवा लाखों व्यवसायों और गैर-लाभकारी निगमों के लिए ऑटैरियो की सरकारी सेवाओं जैसे कि व्यवसाय को पंजीकृत करना, किसी गैर-लाभकारी संस्था को शामिल करना, और एक वार्षिक रिटर्न दाखिल करना और अधिक किफायती बना देगी।

पहली बार, पूरे प्रांत में लोगों को दिन में 24 घंटे, वर्ष में 365 दिन, 90 से अधिक सेवाओं तक सीधी पहुंच प्राप्त होगी और वे मेल या फैक्स के बजाय तुरंत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन पूरा करने में सक्षम होंगे।

उदाहरण के लिए, पंजीकरण या फाइलिंग जिन्हें पहले मेल या फैक्स द्वारा जमा किया गया था, और जिन्हें पूरा होने में चार से छह सप्ताह लगते थे, अब इन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्री के माध्यम से तुरंत किया जा सकता है।

ऑटैरियो के महामारी के बाद के आर्थिक सुधार का समर्थन करने के लिए, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि व्यवसाय अपनी लागत को कम करने और पुनर्निर्माण पर अपना समय और ऊर्जा केंद्रित करने की अनुमति देने के लिए उन सेवाओं तक जल्दी और कुशलता से पहुंच सकें जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है।

वर्तमान प्रणाली का निर्माण लगभग 30 साल पहले हुआ था और यह पुरानी तकनीक पर चलती है। नई ऑटैरियो व्यापार रजिस्ट्री इस बोज़िल प्रणाली स्थान लेगी और हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था और तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया की जरूरतों को पूरा करेगी।

नई व्यापार रजिस्ट्री :

- एक सुव्यवस्थित डिजिटल चैनल के माध्यम से व्यवसायों को पंजीकृत करने और बनाए रखने के साथ-साथ सरकारी फाइलिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करना आसान बनाएं।
- कई सरकारी उत्पादों और सेवाओं को तुरंत प्रदान करके समय बचाएं, और यह समय लेने वाली, कागज-आधारित प्रक्रियाओं के सुविधाजनक विकल्प है।
- सुव्यवस्थित शुल्क, मुफ्त खोजों और समेकित खोज उत्पादों के माध्यम से ऑटैरियो के व्यवसायों के लिए बोझ और लागत को कम करें।

व्यापार रजिस्ट्री म शामिल विशेषताएं:

- 90 से अधिक सेवाएं दिन के 24 घंटे, वर्ष के 365 दिन ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
- आपको सीधे ईमेल किए गए दस्तावेजों और लेन-देन रसीदों के साथ त्वरित सेवा।
- उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और त्रुटि-मुक्त तरीके से आगे बढ़ने में मदद करने के लिए सत्यापन सुविधाएं।
- सार्वजनिक रूप से कारोबार न करने वाले व्यवसायों के तेजी से निगमन के लिए पूर्व-पॉपुलेटेड प्रावधान।
- आगामी फाइलिंग का ट्रैक रखने के लिए स्वचालित ईमेल अनुस्मारक।
- उन्नत खोज फ़ंक्शंस मुफ्त ऑनलाइन खोजों और समेकित खोज उत्पादों की अनुमति देते हैं, जिनसे कई दस्तावेजों की आवश्यकता समाप्त होती है।

- अलाभकारी निगम अधिनियम, 2010 की उद्घोषणा के माध्यम से गैर-लाभकारी निगमों का ऑनलाइन से सरलीकृत निगमन और रखरखाव।
- स्कैन करने योग्य QR कोड व्यवसायों के रीयल-टाइम सत्यापन की अनुमति देते हैं।
- व्यापार निरंतरता का समर्थन करने के लिए सेवा प्रदाताओं ESC Corporate Services Ltd. और Dye & Durham Corporation द्वारा इकोर के साथ निरंतर एकीकरण।

उपयोगकर्ता उदाहरण

- ➔ Madalitso एक छोटा व्यवसाय स्वामी है जो स्वयं इन्कॉर्पोरेट करना (incorporate) करना चाहता है। मेल-इन प्रक्रिया के सप्ताह भर के प्रतीक्षा समय से बचने के लिए, वह व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण पूरा करने के लिए टोरंटो की यात्रा करने के लिए - व्यावसायिक घंटों के दौरान - काम से समय निकालता है।

जब नई ऑटैरियो व्यापार रजिस्ट्री लॉन्च की जाती है, **Madalitso अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है, और ईमेल द्वारा तत्काल पुष्टि प्राप्त कर सकता है।** Madalitso बिना कार्यालय छोड़े और अपने काम से समय निकाले बिना, वार्षिक फाइलिंग को पूरा करना, अपना व्यावसायिक पता बदलना, या दिन में 24 घंटे, वर्ष में 365 दिन 90 से अधिक अन्य लेनदेन को पूरा करने का चुनाव कर सकता है।

- ➔ Gee एक योग स्टूडियो स्थापित कर रही है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके द्वारा चुने गए नाम के साथ कोई अन्य व्यवसाय संचालित न हो। Gee पांच रिपोर्ट विकल्पों के बीच अंतर और, अपने सभी ठिकानों, आदेशों और कई प्रमाणपत्रों के भुगतान को कवर करने के बारे में अनिश्चित है।

नई ऑटैरियो व्यापार रजिस्ट्री के साथ, **Gee लागत के 40% पर एक प्रमाणित दस्तावेज ऑर्डर कर सकेगी:** नो मैच का प्रमाण पत्र, जो पहले पेश किए गए पांच दस्तावेजों को समेकित करता है। Gee ईमेल के माध्यम से दस्तावेज को तुरंत प्राप्त कर सकती है, जिस से समय और धन की बचत हो सकती है।



अगल कदम:

ऑटैरियो व्यापार रजिस्ट्री के बारे में नई जानकारी पर अद्यतित रहने के लिए, यहां साइन अप करें Ontario.ca/BusinessRegistry।